TO BE SUBMITTED ATLEAST
20 DAYS BEFORE THE
ADVANCE IS REQUIRED.

FORM OF APPLICATION FOR PROVIDENT FUND ADVANCE

1.		
	Subscriber's Name	2. Personal File No.
3.	Designation 4. Departm	ent 5. Phone No.
6.	Which P.F. Scheme opted for ?	7. Basic Pay Rs.
8.	Balance at credit of the subscriber	Rs.
9.	Details of outstanding advance and the	
	purpose for which it was taken.	
	(a) Amount of previous advance(b) Amount refunded out of advance(c) Amount of advance outstanding	Rs. Rs. Rs.
10.	Amount of advance required	Rs.
11.	Purpose for which the advance is requi (Para 11 of Schedule E/Para 10 of Sch. I	red
12.	Amount of the consolidated advar (item 9 (c) +10) and the number of mont instalments in which the consolidar advance is proposed to be repaid (cons dated amount should be divisible by Number of proposed instalments).	nce hly ted oli-
13	Full particulars of the pecuniary circustances of the subscriber justifying application for the advance.	· ·
14.	Date of Retirement	
15.	I hereby declare that amount of Rs CPF / GPF advance, has been utilised by	drawn by me last time as refundable/non refundable me for the purpose for which it was drawn.
16.	Bank Accont No	
		SIGNATURE OF THE APPLICANT
		SIGNATURE OF THE AFFLICANT
Sign	nature of Recommending Authority	DATE:
	nature of Recommending Authority	
	TRUCTIONS: Payslip of the last month should be enc	
INS	FRUCTIONS: Payslip of the last month should be encluded after the drawal of advance. Accounts Secul particulars of the purpose for which	DATE:
INS	Payslip of the last month should be ence after the drawal of advance. Accounts S Full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere	DATE: losed with the application, and the same be collected section will not be responsible for the loss of Payslip. The advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should
INS 1. 2.	Payslip of the last month should be end after the drawal of advance. Accounts 5 Full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the a	DATE: losed with the application, and the same be collected section will not be responsible for the loss of Payslip. The advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should
INS 1. 2.	Payslip of the last month should be end after the drawal of advance. Accounts 5 Full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the a FOR C. Advance applied for is admissible under	DATE: losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. The advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should pplication is liable to be rejected. DEFICE USE ONLY) Para
INS 1. 2.	Payslip of the last month should be end after the drawal of advance. Accounts 5 Full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the a FOR C. Advance applied for is admissible under	DATE: losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. The advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should pplication is liable to be rejected. DEFICE USE ONLY)
INS 1. 2. 3.	Payslip of the last month should be encluded after the drawal of advance. Accounts is full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of the control	DATE: losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. The advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should pplication is liable to be rejected. DEFICE USE ONLY) Para
INS 1. 2. 3. i)	Payslip of the last month should be encluded after the drawal of advance. Accounts is full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of the control	DATE: losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. The advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should pplication is liable to be rejected. DEFICE USE ONLY) Para
ins 1. 2. 3. i) ii)	Payslip of the last month should be encluded after the drawal of advance. Accounts of the purpose for which serial 11 e.g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of the control of the purpose for which serial 11 e.g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of the control of the contr	DATE: losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. It is advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should application is liable to be rejected. DFFICE USE ONLY) Paraof Schedule
ins 1. 2. 3. i) ii) iii)	Payslip of the last month should be encluded after the drawal of advance. Accounts of the purpose for which serial 11 e.g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of Advance against previous advance. Amount of Advance Recommended Rs Amount of consolidated Advance Rs	DATE: losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. It is advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should application is liable to be rejected. DFFICE USE ONLY) Paraof Schedule
ins 1. 2. 3. i) ii) iii) v)	Payslip of the last month should be enclafter the drawal of advance. Accounts is Full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of Advance applied for is admissible under in Special sanction is required as the amount pay. He has a balance of Rs outstanding against previous advance. Amount of Advance Recommended Rs Amount of consolidated Advance Rs Repayable in	DATE: losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. The advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should pplication is liable to be rejected. DEFICE USE ONLY) Para
ins 1. 2. 3. i) ii) iii) v)	Payslip of the last month should be enclafter the drawal of advance. Accounts is Full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of Advance applied for is admissible under in Special sanction is required as the amount pay. He has a balance of Rs outstanding against previous advance. Amount of Advance Recommended Rs Amount of consolidated Advance Rs Repayable in	losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. It advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should pplication is liable to be rejected. DFFICE USE ONLY) Paraof Schedule
ins 1. 2. 3. ii) iii) v) v)	Payslip of the last month should be enclafter the drawal of advance. Accounts is Full particulars of the purpose for which serial 11 e. g. in case of any social cere invariably be mentioned. If information is not properly filled, the amount of Advance applied for is admissible under in Special sanction is required as the amount pay. He has a balance of Rs outstanding against previous advance. Amount of Advance Recommended Rs Amount of consolidated Advance Rs Repayable in	losed with the application, and the same be collected Section will not be responsible for the loss of Payslip. It advance is required should be mentioned against mony date, place, name and relationship etc. should pplication is liable to be rejected. DFFICE USE ONLY) Paraof Schedule

भविष्य निधि अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र

1.	अंशदाता का नाम		2.	म्य० पत्नावली ।	Ħ'o		
3.	पद 4. विभाग		5.	सम्पर्क दूरभाष	सं०		
6.	भविष्य निधि योजना का नाम		7.	मूल वेतन रु०			
8.	अंगदाता के खाते में शेष: रू०						
9.	बकाया अग्रिम का विवरण तथा प्रयोजन						
	जिसके लिए अग्रिम लिया गया।				w.		
	(अ) पूर्व में ली गई अग्रिम राशि: रू०				*		
	(ब) वापस किए गये अग्निम की राशि: रू०	4					
	(स) बकाया अग्रिम की राशि: रू०						
10.	अपेक्षित अग्निम की राशि रू०						
11.	प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है						
	(शिड्यूल ई का पैरा 11 व शिड्यूल एफ का पैरा 10)					
12.	समेकित अग्रिम (मद $9(\pi)+10$) की राणि और						
	मासिक किश्तों की संख्या जिसमें समेकित अग्रिम का						
	मुगतान प्रस्तावित है समेकित राशि प्रस्तावित किश्त	1					
	की सख्या से भाज्य होता चाहिए।						
13.	अंग्रदाता की आर्थिक परिस्थितियों का विवरण जो अग्रिम आवेदन पत्न को उचित ठहरा सके।						
14.	संस्थान में सेवानिवृत्ति की तिथि			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
15.	अंगदाता घोषणा करता है कि गत समय का अग्निम प उपयोग में लाया गया है।	€0	भा	वष्य निधि प्राय	ोजित काय के हो		
16.	बैंक खाता संख्या						
					-		
	अनुशंसा करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर			आ <i>वे</i> दिन	दक का हस्ताक्षर iक		
निर्दे	श :	s *					
1.	आवेदन पत्न के साथ पिछले माह की पे-स्लिप नि पश्चात् अवश्य एकत्न कर लिया जाए। लेखा अनुभ			* '	प्रग्रिम निकासी के		
2,	प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है का पूरा विव						
۷.	अग्रिम अपेक्षित है तो तिथि, स्थान, नाम व सम्बन्ध				समाराहकालए		
3.	यदि वांछित सूचना ठीक-ठीक नहीं भरी गयी है तो व			• •			
-,•					·		
,	(केवल कार्याल	ध्य प्रयाग काल			1.0		
i)	शिह्यूल के पैरा	C		न आवेदित अपि िंक	प्रमदेय है।		
ii) iii)	आवेदित राशि तीन महीने के वेतन की सीमा से आ इनके खाते में रु० की रागि शेष						
1117	वकाया है। पिछला अग्रिम माह						
iv)	अनुशंसित अग्रिम की रकम ६०						
v)	समेकित अग्रिम की रकम रु०						
vi) बाग्रम मासिक किस्त रु० मो देय है।							
	स्वीकृत प्रदान किए जाने की दशा में क्रम सं० (vi) पर	अनुशंसित भुगतान	आ देश प र नं	ोचे हस्ता क्षर क	रने की कृपा करें।		
	सहायक/अधी क्ष क सहायव	क कु ल सचि व		उ प क् ल	सचिव (वित्त)		
		म्बीकत प्रदान			, , ,		
		•ावान प्टान					